

11 दिसम्बर 2013

प्रति,  
श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री  
मुख्यमंत्री कार्यालय,  
भोपाल, मध्य प्रदेश

### विषय: स्वच्छ एवं आदर्श शासन की अपील

माननीय श्री चौहान,

देश भर के 1200 से भी ज्यादा सिविल सोसाइटी समूहों के नेटवर्क 'नेशनल एलेक्शन वॉच' (एनईडब्ल्यू) की मध्य प्रदेश इकाई 'मध्य प्रदेश एलेक्शन वॉच' (एमईडब्ल्यू) की तरफ से हम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की शानदार जीत और आपके मुख्यमंत्री बनने के अवसर पर आपको बधाई देना चाहेंगे।

'नेशनल एलेक्शन वॉच' (एनईडब्ल्यू) और 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) नागरिकों द्वारा संचालित गैर-राजनीतिक, निष्पक्ष और गैर-सरकारी संगठन हैं जो भारत में लोकतंत्र और शासन-व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लगभग एक दशक से चुनाव व राजनीतिक सुधारों के लिए काम कर रहा हैं।

हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि मध्यप्रदेश में मतदाताओं ने समझदारी से स्थिर व परिपक्व सरकार के पक्ष में वोट दिया है, लेकिन हम जब चुनाव परिणामों पर नजर डालते हैं तो कुछ विधायकों के आपराधिक व वित्तीय ब्यौरों से चिंता उभरती है

- चुने हुए विधायकों में से 73 के खिलाफ घोषित तौर पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इनमें से 45 विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं;
- चुने हुए विधायकों में से 161 करोड़पति हैं।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपराधिक पृष्ठभूमि के विधायकों को मंत्रिमंडल एवं विधानसभा में स्थायी समितियों, वित्तीय समितियों आदि में या ऐसे अन्य जिम्मेदार पदों पर न रखा जाए। यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसे समृद्ध विधायक जिनके पास बड़ी मात्रा में संपत्ति है, उन्हें मंत्रिमंडल में ऐसा पद न दिया जाए जिसका उनके व्यापारिक हितों के साथ टकराव होने की संभावना हो।

महोदय, हम यह उम्मीद करते हैं कि आप साफ-सुथरी व आदर्श शासन-व्यवस्था स्थापित करेंगे। साथ ही, इस मौके पर हम अनुरोध करेंगे कि आप हमें आपसे मिलने का समय दें ताकि हम कुछ ऐसी अनुशंसाओं पर चर्चा कर सकें जिनसे नागरिकों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में और भी ज्यादा जानकारी पाने में मदद मिले।


**हम आपके समक्ष अपने निम्नलिखित निवेदन रखते हैं:**

1. आपराधिक पृष्ठभूमि के विधायकों को विधानसभा की स्थायी समितियों, वित्तीय समितियों आदि में या ऐसे अन्य जिम्मेदार पदों पर न रखा जाए;
2. सहकारी समितियों, बैंकों और अन्य सरकारी निकायों के अध्यक्ष भी आपराधिक पृष्ठभूमि के न हो;
3. निम्नलिखित प्रस्तावों को व्यवस्थाबद्ध किया जाए –
  - क) विधान सभा में नियमबद्ध तरीके से सभी विधायकों द्वारा अपनी संपत्ति की सलाहना घोषणा की जाए,
  - ख) आपके कैबिनेट के सभी मंत्रियों द्वारा सलाहना संपत्ति की घोषणा की जाए,
  - ग) राज्यसभा के अनुरूप विधानसभा में विधायकों के वित्तीय हितों को दर्ज करने के लिए रजिस्टर की व्यवस्था की जाए,
  - घ) सदन की कार्यवाहियों, विशेष तौर पर उपस्थिति, प्रश्न इत्यादि, को इंटरनेट पर ऑनलाइन करने के लिए कदम उठाए जाएं, और
  - ङ) विधायक निधि से उपयोग की गई राशि और उससे शुरू किए गए कार्यों के ब्यौरे की सलाहना सूचना ऑनलाइन दर्ज करने की व्यवस्था की जाए।

हमें उम्मीद है कि इस बावत बात करने के लिए आपसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने का मौका जल्द ही मिलेगा।

अगले पांच सालों में मध्य प्रदेश के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं।

भवदीय,




रोली शिवहरे

9425466461



अरुण गुर्ट

9425030287



अब्दुल जब्बार

9406511720 9826066153




राकेश दीवान



गिरीश उपाध्याय

9752022355 9893278855


9977704847



चिन्मय मिश्र

9425026331

सचिन जैन



प्रशांत दुबे



नेशनल एलेक्शन वॉच / एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स

प्रो. त्रिलोचन शास्त्री, संस्थापक सदस्य, एनईडब्ल्यू/एडीआर, मो. +91 9448353285, ईमेल: [trilochans@iimb.ernet.in](mailto:trilochans@iimb.ernet.in)

प्रो. जगदीप चोकर, संस्थापक सदस्य, एनईडब्ल्यू/एडीआर, मो.: +91 9999620944, ईमेल: [jchhokar@gmail.com](mailto:jchhokar@gmail.com)

श्री अनुराग मित्तल, राष्ट्रीय संयोजक, एनईडब्ल्यू/एडीआर, मो.: +91 9811108914, टेल.: +91 011 41654200(ext. 213) ईमेल: [anurag@adrindia.org](mailto:anurag@adrindia.org)